

# इक्विटी का दर्जा चाहें रीट्स

निवेशकों का आधार बढ़ाने का इरादा, ज्यादा बैंक उधारी की भी मांग, उद्योग निकाय की सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक से चर्चा जारी

अभिषेक कुमार  
मुंबई, 20 मार्च

निधन में बदलाव के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (रीट्स) नियामकीय निकायोंसेबी और आरबीआई के साथ बातचीत कर रहे हैं जिससे कि पूंजी तक उनकी आसान पहुंच आसान हो सके। उद्योग निकाय द इंडियन रीट्स एसोसिएशन ने कहा है कि इक्विटी परिसंपत्ति के तौर पर वर्गीकृत करने के लिए उसने बाजार नियामक से संपर्क किया है। इससे इक्विटी सूचकांकों में उनके प्रवेश की राह खुलेगी और म्युचुअल फंडों भी आसानी से निवेश कर सकेंगे। एसोसिएशन आरबीआई के साथ भी सक्रियता से चर्चा कर रहा है ताकि बैंकों को रीट्स को उधार देने की इजाजत मिले। अभी वे ज्यादातर उधारी बैंडों के जरिये या एनबीएफसी से जुटाते हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों से उधारी मिलने पर उन्हें उधारी लागत घटाने में मदद मिलेगी। एम्बेसी रीट के सीईओ और इंडियन रीट्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन अरविंद मैया ने कहा कि हमारे एजेंडे में तीन मसले हैं। पहला, आरबीआई के साथ बातचीत करके रीट्स के लिए बैंकों से उधारी हासिल करना और दूसरा, इक्विटी



## रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स की दलील

- इक्विटी के वर्गीकरण से रीट्स को इक्विटी सूचकांकों में शामिल किया जा सकेगा
- इससे ज्यादा निवेश आएगा, एक्सचेंजों पर तरलता बेहतर होगी

वर्गीकरण पर स्पष्टता। इसके बाद नकदी में इजाफे के लिए सूचकांकों में उन्हें भी शामिल किया जाए। तीसरा, निवेशकों के शिक्षित करना। इंडियन रीट्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में अधिकारियों ने कहा कि रीट्स को इक्विटी के तौर पर वर्गीकृत करने से निवेशकों के सामने ज्यादा स्पष्टता होगी और ऐक्टिव व पैसिव म्युचुअल फंडों के जरिये निवेश का नया रास्ता भी खुलेगा। ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट के एमडी व सीईओ आलोक अग्रवाल ने कहा कि वैश्विक स्तर पर रीट्स को आम तौर पर इक्विटी

के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। वहां तिमाही या छमाही भुगतान होता है लेकिन यह अंतर्निहित परिसंपत्तियों के प्रदर्शन पर निर्भर होता है। साथ ही पूंजी में भी इजाफा होता है। यह एक तरह से इक्विटी की तरह ही है। इसलिए रीट्स को इक्विटी के तौर पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए। अभी ऐक्टिव फंड योजनाओं को रीट्स व इनविट्स में निवेश को लेकर कुछ छूट मिली हुई है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिनमें इन परिसंपत्ति वर्गों के कुल कोष का 10 फीसदी तक निवेश का प्रावधान है।

नवगठित एसोसिएशन ने कहा कि उसका इरादा प्रसार व निवेशकों की जागरूकता को लेकर एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) की तरह भूमिका निभाने का है। आईआरए को म्युचुअल फंड के 4 करोड़ निवेशकों का आधार भी अपने लिए बाजार नजर आ रहा है। अभी करीब 2 लाख रीट्स निवेशक हैं। नेक्सस सलेक्ट ट्रस्ट के सीईओ दलीप सहगल ने कहा कि म्युचुअल फंडों के 4 करोड़ से ज्यादा निवेशकों के समूह को देखते हुए कोई वजह नजर नहीं आती कि रीट्स के निवेशकों की संख्या आगामी वर्षों में काफी ज्यादा क्यों नहीं बढ़ सकती। भारत में रीट्स शैशवावस्था में है। पहले रीट की लिस्टिंग 2019 में हुई। अभी चार रीट्स ब्रुकफील्ड इंडिया, एम्बेसी, माइंडस्पेस बिजनेस पाक्स और नेक्सस सलेक्ट ट्रस्ट सूचीबद्ध हैं। आईआरए ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा है कि भारतीय रीट बाजार ने साल 2019 में पहली सूचीबद्धता के बाद से काफी वृद्धि दर्ज की है और उसकी सकल तौर पर 1.3 लाख करोड़ रुपये की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां हैं और बाजार पूंजीकरण 85,000 करोड़ रुपये व देश भर में ग्रेड ए ऑफिस व रिटेल के तहत 11.5 करोड़ वर्गफुट का पोर्टफोलियो है।

## कोटक बैंक के मण्यन व एकंबरम के पदनाम के बदलाव को मंजूरी

बीएस संवाददाता  
मुंबई, 20 मार्च

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों केवीएस मण्यन और शांति एकंबरम के पदनाम में बदलाव कर उन्हें क्रमशः संयुक्त प्रबंध निदेशक

और उप-प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी। निजी क्षेत्र के बैंक ने बुधवार को यह ऐलान किया। बैंक ने एक्सचेंजों को जानकारी दी है कि इसके मृताविक मण्यन और एकंबरम मार्च से प्रभावी होगा और वे क्रमशः संयुक्त प्रबंध निदेशक और उप-प्रबंध निदेशक

होंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने पिछले महीने अपनी वरिष्ठ प्रबंधन टीम के पुनर्गठन की घोषणा की थी। इसके पदनाम बैंक ने मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ), मुख्य वित्त अधिकारी (समूह) और मुख्य जोखिम अधिकारी (समूह) को नियुक्ति की भी घोषणा की है। जनवरी में बैंक के प्रबंध

निदेशक और मुख्य कार्यधिकारी के तौर पर अशोक वासवानी के कार्यभार संभालने के बाद नेतृत्व के स्तर पर यह पहला अहम बदलाव है। (डिस्कलेमर : कोटक फैमिली के नियंत्रण वाली इकाइयों की बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड में खासी हिस्सेदारी है)

## पुनर्खरीद व लाभांश वाली फर्मों में निवेशकों की रुचि

पुनीत वाधवा  
नई दिल्ली, 20 मार्च

बोफा सिक्योरिटीज (बोफा) के एक सर्वे में कहा गया है कि शेयर पुनर्खरीद, लाभांश या विलय एवं अधिग्रहणों (एमएंडए) के जरिये शेयरधारकों को नकदी लौटाने को प्राथमिकता देने वाली कंपनियों के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। यह जुलाई 2015 के बाद से सबसे तेजी से बढ़ी है। करीब 30 प्रतिशत प्रतिभागियों का कहना है कि वे चाहते हैं कि कंपनियां ऐसा करती रहें।

बोफा ने कहा कि मार्च में हुए फंड मैनेजर सर्वे (एफएमएस) में 572 अरब डॉलर की एयूएम वाले 226 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जहां 527 अरब डॉलर एयूएम ये जुड़े 198 प्रतिभागियों ने ग्लोबल एफएमएस के सवाल का जवाब दिया, वहीं 256 अरब डॉलर एयूएम वाले 119 प्रतिभागियों ने क्षेत्रीय सवालों में हिस्सा लिया। बोफा ने कहा, 'बढ़ी तेजी से निवेशकों के इक्विटी आवंटन को शुद्ध 28 प्रतिशत ओवरवेट (फरवरी 2022 के बाद से सर्वाधिक) पर पहुंचा दिया जबकि नकदी में शुद्ध निवेश मामूली घटकर 5 प्रतिशत ओवरवेट (पिछले 6 प्रतिशत ओवरवेट से कम) पर ला दिया। कुल मिलाकर, निवेशक नवंबर 2021 से नकदी के मुकाबले इक्विटी पर ज्यादा ओवरवेट हैं।' निवेशकों ने मार्च में अप्रैल 2017 के बाद से



बोफा के सर्वे में हुआ खुलासा ■ निवेशकों ने मार्च में उभरते बाजारों की इक्विटी में अप्रैल 2017 के बाद से सबसे तेज गति से निवेश किया

■ जोखिम सहन की क्षमता भी नवंबर 2021 के बाद से सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर दर्ज की गई

सबसे तेज गति से उभरते बाजार के शेयरों में निवेश किया, और जून 2020 के बाद से सबसे तेज गति से युरोजोन के शेयरों में निवेश किया। फंड प्रबंधकों के बीच वैश्विक वृद्धि की उम्मीद दो वर्ष की ऊंचाई पर रही। जोखिम उठाने की क्षमता नवंबर 2021 के बाद से सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर दर्ज की गई।

बोफा सिक्योरिटीज में मुख्य निवेश रणनीतिकार माइकल हर्टनेट ने इलियास गेलोउ, अन्या शेलेखिन और म्यूंग-जी जुंग के साथ मिलकर तैयार सर्वे की निष्कर्ष रिपोर्ट में कहा है, 'अमेरिका के खर्च की वजह से वित्तीय क्षेत्र में बदलाव देखा गया, जोखिम सहन करने की क्षमता को कम लाभांश वाले शेयरों के लिए प्राथमिकता के माध्यम से भी व्यक्त किया गया था, जो दिसंबर 2021 के बाद से उच्चतम स्तर

पर थी। दो-तिहाई प्रतिभागियों ने कहा कि अगले 12 महीनों में मंदी की आशंका नहीं है।' बोफा के सर्वे में शामिल करीब 40 प्रतिशत प्रतिभागियों (दिसंबर 2023 में 62 प्रतिशत) का अब मानना है कि दुनियाभर में बॉन्ड प्रतिफल अगले 12 महीने में नरम पड़ेगा। 32 प्रतिशत फंड प्रबंधकों ने मुद्रास्फीति को बाजारों के लिए सबसे बड़े जोखिम के तौर पर माना। बोफा के निष्कर्ष में कहा गया है कि 'मैनीफिस्ट 7' (एनवीडिया, ऐपल, माइक्रोसॉफ्ट, एमेज़ॉन, अल्फाबेट-गूगल, मेटा प्लेटफॉर्म और टेस्ला) के शेयर 58 प्रतिशत फंड प्रबंधकों के पसंदीदा रहे। इसके बाद चीन (14 प्रतिशत), लॉन जापान इक्विटी (13 प्रतिशत) और लॉन ब्रिटेन (10 प्रतिशत) का स्थान रहा।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA  
INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL DISCLOSURES REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED.  
THIS ADVERTISEMENT IS MADE FOR RESUBMISSION OF DRAFT OFFER DOCUMENT PURSUANT TO SEBI CIRCULAR SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2024/009 DATED FEBRUARY 06, 2024.

(Please scan this QR Code to view the DRHP)

## PUBLIC ANNOUNCEMENT

# STALLION

## STALLION INDIA FLUOROchemicals LIMITED

Our Company was incorporated as Stallion India Fluorochemicals Private Limited, a private limited company, at Mumbai under the Companies Act, 1956 on September 05, 2002, and was granted the certificate of incorporation by the RoC. Subsequently, the name of the Company was changed to Stallion India Fluorochemicals Limited pursuant to a special resolution passed by the shareholders of the Company on August 07, 2023, and a fresh certificate of incorporation dated October 05, 2023 was issued by the RoC consequent upon change of name upon conversion into a public limited company under the Companies Act, 2013. For further information, please refer chapter "History and Certain Other Corporate Matters" on page 166 of the Draft Red Herring Prospectus.

**Registered and Corporate Office:** 2, A Wing, Knox Plaza, Off. Link Road, Mindspace, Malad - (West), Mumbai – 400064;  
**Tel. No:** 022-43510000; **E-mail:** compliance@stallion.in; **Website:** www.stallionfluorochemicals.com;  
**Contact Person:** Sarita Khamwani, Company Secretary and Compliance Officer **Corporate Identity Number:** U51410MH2002PLC137076

### PROMOTERS OF THE COMPANY:

**SHAZAD SHERIAR RUSTOMJI, MANIHA SHAZAD RUSTOMJI & ROHAN SHAZAD RUSTOMJI**

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 2,21,61,396 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO 1,78,58,740 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS BY OUR COMPANY (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 43,02,656 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS BY SHAZAD SHERIAR RUSTOMJI, (THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") (THE "OFFER FOR SALE"). THE OFFER WOULD CONSTITUTE 27.94 % OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

In case of any revision to the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company and the promoter Selling Shareholder may, in consultation with the BRLM, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Offer Period for a minimum of one Working Days, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLM and at the terminals of the Syndicate Member(s) and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Banks, as applicable.

This is an Offer in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR"), read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process in terms of Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs and such portion, the "QIB Portion"), provided that our Company and the Promoter Selling Shareholder, in consultation with the BRLM, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"), out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds only, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("Anchor Investor Allocation Price"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders of which one-third portion shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders with a Bid size of more than ₹2 lakhs and up to ₹10 lakhs and two-third portion shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders with a Bid size of more than ₹10 lakhs, provided that unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations and not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price all potential Bidders (except Anchor Investors) are mandatorily required to utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA accounts and UPI ID in case of UPI Bidders using the UPI Mechanism, as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or by the Sponsor Banks under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are invited to participate in the Offer through the ASBA Process. For further details, see "Offer Procedure" on page 312.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP dated March 20, 2024 with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on March 20, 2024. Further, This Draft Offer Document is resubmitted to SEBI for its observations pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2024/009 dated February 06, 2024. The Initial Draft Offer Document was filed on December 18, 2023 which was returned by SEBI vide its letter dated January 19, 2024.

Pursuant to Regulation 26(1) of SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 (twenty one) days from the date of such filing, by hosting it on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the BRLM at www.sarthi.in, our Company at www.stallionfluorochemicals.com, and the Stock Exchanges where the Equity Shares are proposed to be listed, i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com. Our Company hereby invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI in respect of disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLM at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our Company or the BRLM in relation to the Offer on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 27.

Any decision to invest in the equity shares described in the DRHP may be made after a Red Herring Prospectus ("RHP") has been registered with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on Stock Exchanges.

The liability of the members of our Company is limited by shares. For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, please see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 166 of the DRHP. For details of the share capital and capital structure of our Company and the names of the signatories of the Memorandum of Association and the number of shares of our Company subscribed by them, please see "Capital Structure" beginning on page 67 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER		REGISTRAR TO THE OFFER	
	<b>Sarthi Capital Advisors Private Limited</b> <b>CIN:</b> U65190DL2012PTC238100 401, 4thFloor, Manek Plaza, 167, Vidyannagar Marg, Kalina, Santacruz (E), Mumbai – 400 098 <b>Tel No.:</b> +91 22 2652 8671/ 72 <b>Email Id:</b> compliance@sarthi.wm <b>Website:</b> www.sarthi.in <b>Contact Person:</b> Mr. Taher Engineer <b>SEBI Registration No.:</b> INM000012011		<b>Bigshare Services Private Limited</b> <b>CIN:</b> U99999MH1994PTC076534 Office No S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai – 400093 <b>Tel. No.:</b> +91 22 6263 8200; <b>Email:</b> ipo@bigshareonline.com <b>Investor Grievance E-Mail:</b> investor@bigshareonline.com <b>Contact Person:</b> Mr. Jibu John <b>SEBI Registration No.:</b> INR000001385 <b>Website:</b> www.bigshareonline.com

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed in the DRHP

For Stallion India Fluorochemicals Limited  
On behalf of Board of Directors  
Sd/-  
**Sarita Khamwani**  
**Company Secretary and Compliance Officer**

**Place:** Mumbai  
**Date:** March 20, 2024  
**Stallion India Fluorochemicals Limited** is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP dated March 20, 2024 with SEBI on March 20, 2024. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, NSE at www.nseindia.com, BSE at www.bseindia.com and the website of the BRLM at www.sarthi.in and our Company at www.stallionfluorochemicals.com. Any potential investor should note that the investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to risk, please see to the section titled "Risk Factors" of the RHP, when filed. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decisions. Specific attention of the Investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 27 of the DRHP.

The Equity Shares offered have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933, as amended ("U.S. Securities Act") or any other applicable laws in the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity shares are being offered and sold outside the United States in offshore transactions as defined in and in reliance on regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be issued or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

Sarjette Comm.

## बड़े सपनों का रखे ख्याल

### एलआईसी की अमृतबाल

### एलआईसी की अमृतबाल

यूआइएन: 512N365V01  
प्लान नं. 874

### बच्चों के लिये बीमा योजना

LIC/IR1/2023-24/25/HIN

**प्राइवेट की मुख्य विशेषताएँ**

- पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान आकर्षक गारंटीड एडीशन्स
- परिपक्वता की उम्र 18-25 वर्ष
- एकल/सीमित प्रीमियम भुगतान चुनने का विकल्प

**यह प्लान बिक्री के लिये ऑनलाइन भी उपलब्ध है**

एक नॉन-लिंक्ड, असहभागी, व्यक्तिगत, बचत, जीवन बीमा योजना

भारतीय जीवन बीमा निगम  
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

*Har Pal Aapke Saath*

LIC मोबाइल ऐप डाउनलोड करें

डिजिटल करें: [licindia.in](https://licindia.in)

कॉल सेंटर सर्विस (022) 6827 6827

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेंट/निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें या अपने शहर का नाम 56767474 पर एसएमएस करें

हमें यहाँ फॉलो करें: [f](#) [t](#) [x](#) [in](#) [in](#) LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

नकदी फोन कॉल और मैसेज/घोषणाएँ पूर्ण ऑफर से सावधान रहें, आईआईसीआई जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बीमा प्रोत्ति करने या प्रीमियमों के निवेश जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाएँ। बिक्री सम्पन्न से पूर्व अधिक जानकारी या जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए बिक्री पुरतिका का ध्यानपूर्वक पढ़ें।

हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090

करिए Hi